

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा – चतुर्थ

दिनांक 21-10-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों कल कर्म कारक के बारे में अध्ययन किए थे, आज करण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे

करण कारक

करण कारक की परिभाषा

वह साधन जिससे क्रिया होती है, वह करण कहलाता है। यानि, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता वह करण कारक कहलाता है।

करण कारक की विभक्ति- करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं- से और के द्वारा।

करण कारक के कुछ उदाहरण

वह लड़का ठण्ड से काँप रहा था।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं, 'से' विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। हम जानते हैं कि यह चिन्ह करण कारक का होता है।

इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। इस वाक्य में कर्म ठंड कर्म है। क्योंकि इसकी वजह से ही काँप रहा था। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेगा।

राम ने बाली को बाण से मारा।

ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि आप देख सकते हैं की बाली को मारे जाने की क्रिया है। यह क्रिया बाण के द्वारा कि गयी मतलब बाण साधन है जिससे क्रिया हुई। ऊपर वाक्य में 'से' विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेगा।

सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए वाक्य में देख सकते हैं खाना बनवाने की क्रिया है। यह पत्नी के द्वारा करवाई गयी है। अतः पत्नी साधन कहलाएगी। दिए गए वाक्य में के द्वारा का भी प्रयोग किया गया है। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेगा।

अभय ने सारा काम बच्चों से करवाया।

ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि काम क्रिया बच्चों से करवाई गयी है। यानि बच्चे साधन एवं करण हैं। अतः यह उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेगा।

करण कारक के कुछ अन्य उदाहरण

- बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं।
- पत्र को कलम से लिखा गया है।
- अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है।

ऊपर दिए गये वाक्यों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि क्रिया के होने का साधन क्या है।

अर्थात् किसके द्वारा काम किया गया है। सभी वाक्यों में क्रिया को कौन अंजाम दे रहा है इसका पता चल रहा है। अतः ये उदाहरण करण कारक के अंतर्गत आयेंगे।

ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं लिखकर याद करें।